

MINDA CORPORATION LIMITED
(Group Corporate Office)

June 14, 2024

The Officer-In-Charge (Listing)
Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East),
Number 100 051

Mumbai - 400 051 Symbol: MINDACORP Head - Listing Operations, BSE Limited, P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001 Scrip Code: 538962

<u>Sub: Newspaper Clippings for Transfer of Equity Shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account</u>

Dear Sir/ Madam

Pursuant to Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Regulations"), please find enclosed herewith clippings of notice published by the Company in the newspaper i.e. Financial Express (English) and Jansatta (Hindi)- Delhi edition on June 14, 2024 in relation to publication of a notice pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended from time to time ("Rules"), all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more ("such shares") shall be transferred by the Company in the Demat Account of Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPFA") ("Authority") within a period of thirty days of such shares becoming due to be transferred to the IEPF as per the procedure mentioned in the said Rules.

You are requested to take the same on your records.

Thanking You,

Yours Faithfully

For Minda Corporation Limited

Pardeep Mann Company Secretary Membership No A13371

Minda Corporation Limited (Group Corporate Office)

CIN: L74899DL1985PLC020401

D-6-11, Sector 59, Noida – 201301, U.P., India Tel: +91-120-4787100; Fax: +91-120-4787201

Registered Office: A-15, Ashok Vihar, Phase-I, Delhi-110052

Website: www.sparkminda.com; Email: investor@mindacorporation.com

जनसता

IDFC FIRST

(... Continued from previous page)

BOOK RUNNING LEAD

MANAGER TO THE ISSUE BEELI/A/E **BEELINE CAPITAL ADVISORS**

PRIVATE LIMITED

SEBI Registration Number: INM000012917 Address: B 1311-1314, Thirteenth Floor, Shilp Corporate Park, Rajpath Rangoli Road, Thaltej, Ahmadabad, Gujarat – 380054, India. **Telephone Number:** 079 4918 5784 Email Id: mb@beelinemb.com Investors Grievance Id: ig@beelinemb.com Website: www.beelinemb.com

Contact Person: Mr. Nikhil Shah

CIN: U67190GJ2020PTC114322

REGISTRAR TO THE ISSUE

LINKIntime LINK INTIME INDIA **PRIVATE LIMITED**

SEBI Registration Number: INR000004058 Address: C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai, Maharashtra, India – 400 083 Tel. Number: +91 810 811 4949 **Fax:** +91 22 4918 6195 Email Id: dindigulfarm.ipo@linkintime.co.in **Investors Grievance Id:** dindigulfarm.ipo@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in

Contact Person: Ms. Shanti Gopalkrishnan

CIN: U67190MH1999PTC118368

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

EnNutrica ENERGETIC NUTRITION

DINDIGUL FARM PRODUCT LIMITED Mr. Gurunathan Uma Kanth Narayanan Address: 2/52-3, Pillaiyarnatham Pithalaipatty Post, Dindigul, Tamil Nadu, India, 624002. **Tel No:** 045 4429 0099/ +91 94980 99930; Email: cs@ennutrica.com

Website: www.ennutrica.com Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLMs or the Registrar to the Issue in case of any pre-Issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund orders, etc.

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at www.ennutrica.com. the website of the BRLM to the Issue at www.beelinemb.com, the website of BSE i.e. www.bseindia.com, respectively.

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Dindigul Farm Product Limited, Telephone: 045 4429 0099/+91 94980 99930; BRLM: Beeline Capital Advisors Private Limited, Telephone: 079 4918 5784 and the Syndicate Member: Spread X Securities Private Limited Telephone: +91 79 6907 2018 and at the selected locations of the Sub-Syndicate Members, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Issue. Bid-cum-application Forms will also be available on the websites of BSE and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI.

ESCROW COLLECTION BANK/ REFUND BANK/ PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK/ SPONSOR BANK: Axis Bank Limited. UPI: Retail Individual Bidders can also Bid through UPI Mechanism.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

On behalf of Board of Directors For, DINDIGUL FARM PRODUCT LIMITED sd/-

Place: Dindigul Date: June 14, 2024

R Rajasekaran **Managing Director and Chairman**

Disclaimer: Dindigul Farm Product Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public issue of its Equity Shares and has filed the RHP with the Registrar of Companies, Tamil Nadu at Coimbatore on June 12, 2024 and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The RHP is available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at www.ennutrica.com, the website of the BRLM to the Issue at www.beelinemb.com, the website of BSE i.e. www.bseindia.com, respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the RHP including the section titled "Risk Factors" beginning on page 28 of the Red Herring Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being Offered and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such Offers and sales are made. There will be no public offering in the United States.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(तत्कालीन कैपिटल फर्सुट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित सीआईएनः L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालयः केआरएम टावर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई — 600031. टेल: +91 44 4564 4000 | फैक्स: 91 44 4564 4022.

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और प्नर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की

धारा 13 (2) के तहत सचना। निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तत्कालीन कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण का लाभ उठाया। नीचे दिए गए उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों को गिरवी रखकर सुरक्षित किया गया है। चुंकि वे संबंधित ऋण समझौतों के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए थे, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था। आईडीएफसी फर्सट बैंक लिमिटेड (तत्कालीन कैपिटल फर्सट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्सट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार निम्नलिखित तालिका में विशेष रूप से वर्णित किया गया है और उक्त राशि पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसका शुल्क उनकी संबंधित तिथियों से संविदात्मक दर के अनसार लिया जाएगा।

क्रं. सं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	उधारकर्ताओं और सह—उधारकर्ताओं के नाम	धारा 13(2) के अनुसार सूचना की तिथि	नोटिस के	संपत्ति का पता
1	34042340	संपत्ति के विरुद्ध ऋण	1. राहुल चौधरी 2. रेणु राहुल 3. मुकेश विनोद	22.05.2024	12,14,793.95 / —	आवासीय भूखंड संख्या 248 का वह पूरा टुकड़ा, कुल भूखंड क्षेत्रफल 190 वर्ग मीटर पॉकेट / ब्लॉक—सी, सेक्टर / गांव आबादीः कासना, ग्रेटर नोएडा, जिला—गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश—201310 में स्थित है, तथा इसकी सीमाः पूर्वः 7.50 मीटर चौड़ी सड़क पश्चिमः भूखंड संख्या 263 और 262, उत्तरः भूखंड संख्या 249, दक्षिणः 7.50 मीटर चौड़ी सड़क
2	17996810	संपत्ति के विरुद्ध ऋण	1. राजेश कुमार शाह 2. ज्योति कुमारी	17.05.2024	12,14,678.04 / —	तीसरे तल पर (छत के अधिकार के साथ) लाइट फ्लैट नंबर 301 का पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसका कवर्ड एरिया 35 वर्ग गज यानि 29.26 वर्ग मीटर है, खसरा नंबर 76 और 78 मिन में से, प्लॉट नंबर 20, 21, 28 और 29 पर बना है, सुदामापुरी कॉलोनी

आपको उपरोक्त तालिका में दिखाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तत्कालीन कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को अनुबंधित ब्याज दर के साथ राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर उनकी संबंधित तिथियां और अन्य लागत, शुल्क इत्यादि, ऐसा न करने पर अधोहस्ताक्षरी उल्लिखित बंधक संपत्तियों के खिलाफ, सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) और धारा 14 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होगा। यहां ऊपर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तत्कालीन कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्सट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि की वसूली के बारे में बताया गया है। इसके अलावा आपको उक्त अधिनियम

की धारा 13 (13) के तहत उक्त सुरक्षित संपत्तियों को बिक्रीध्पट्टे या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

हस्ता/-प्राधिकत अधिकारी आईडीएफसी फर्सट बैंक लिमिटेड

(कृष्ण वाटिका) में स्थित है, गांवः डूंडाहेड़ा, परगनाः

लोनी, तहसील और जिलाः गाजियाबाद, उत्तर

प्रदेश-201102, और इसकी सीमाएं: उत्तर-पूर्वः अन्य

फ्लैट दक्षिण-पश्चिमः प्रवेश, उत्तर-पश्चिमः फ्लैट

नंबर 308. दक्षिण-पर्वः फ्लैट नंबर 302

दिनांकः 14.06..2024 स्थान : दिल्ली / एनसीआर

(तत्कालीन कैपिटल फर्सट लिमिटेड, के साथ समामेलित आईडीएफसी बैंक लिमिटेड और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

फॉर्म नं. यूआरसी–2 अधिनियम के अध्याय XXI के भाग । के तहत विज्ञापन पंजीकरण [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(बी) और कंपनी (पंजीकरण के लिए अधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसार]

. इसके द्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की घारा 366 की उपधारा (2) के अनुसार, पंद्रह दिन के पश्चात लेकिन तीस दिन की अविध समाप्त होने से पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज 37/17, वेस्टकॉट बिल्डिंग, द मॉल, कानपुर-208001, उत्तर प्रदेश को आवेदन किया जाना प्रस्तावित है।

कि ''अपासिंक एंड पार्टनर्स'', एक साझेदारी फर्म को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।

2. कंपनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:-कानूनी गतिविधियाँ, ईंटें, लकड़ी, स्वच्छता उपकरण जैसी निर्माण सामग्री की खुदरा बिक्री, अन्य सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर सेवा गतिविधियाँ एन.ई.सी. 3. प्रस्तावित कंपनी के ड्राफ्ट मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की एक प्रति का निरीक्षण ए-41, सेक्टर-16, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश पिन-201301 स्थित कार्यालय में किया जा सकता है। 4. इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6,7,8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला ग्डगांव (हरियाणा), पिन कोड-122050 में रजिस्ट्रार को लिखित रूप में अपनी आपत्ति बता

सकता है, साथ ही इसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत

कार्यालय को भी भेजेगा। दिनांक 14 जून, 2024, शुक्रवार। के लिए और उनकी ओर से अपासिंक और पार्टनर्स सिद्धांत सिंह (साथी)

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies. associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

पिरामल कैपिटल & हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पूर्व में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) **सीआईएन:**L65910MH1984PLC032639 **पंजीकृत कार्यालय:** युनिट नंबर -601, 6 वीं मंजिल, पीरामल अमिति बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पेॅश्रिम), मुंबई -400070 -दुरभाष +91 22 3802 4000। **शाखा कार्यालय:** युनिट नंबर 01 और 09, ग्राउंड फ्लोर, जीडी-आईटीएल नॉर्थ एक्स टॉवर, प्लॉट नंबर ए -9, नेतार्जी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली - 110034 और प्लॉट नंबर -6, ब्लॉक- ए 2 मंजिल, सेक्टर 2, नोएडा - 201301

ताबा सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8-(1) और परिशिष्ट- IV के अनुसार अचल संपत्ति के लिए जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण औरपुनर्निर्माण और सुरक्षा हितअधिनियम 2002 के प्रवर्तन केतहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 वे नियम 3 केसाथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्तशक्तियों के प्रयोग मेंपीरामल कैंपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉपोरेशन लिमिटेड के रूप मेंजाना जाता था) का अधिकृत अधिकारीहै, कंपनीके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं)/गारंटर (ओं) को उक्त नोटिसकी प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिसमें उल्लिखित राशि चुकाने के लिए जारीडिमांड नोटिस। उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहा है, इसके द्वारा उधारकर्ता (ओं)/गारंटर (ओं) और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, उपलब्ध समय के सेंबंध में, सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए। विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को एतद्दवारा आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के शुल्क के अधीन होगा, जो उस पर ब्याज के साथ नीचे उल्लिखित राशि के लिए है।

के नाम	से जाना जाता था) के शुल्क के अधीन होगा, जो उस	पर ब्याज के साथ नीचे उल्लिखित राशि के लिए है।	<u> </u>	
क्र न	उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) का नाम	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	मांग सूचना दिनांक और राशि	कब्ज़ा तिश्
1.	(लोन कोड नंबर-27400000015), (भिवाड़ी- शाखा), विजय कुमार शर्मा (उधारकर्ता)/ममता शर्मा (सह-उधारकर्ता)	तमाम भाग और हिस्से के साथ - प्लॉट नंबर 21, ब्लॉक नंबर 12, एनडीएलसी सिटी 1, गांव खिदरपुर, तहसील तिजारा, अलवर बाईपास के पास, भिवाड़ी, राजस्थान, अलवर, राजस्थान:-301019	29/06/2023 Rs. 1048548/- (रुपए दस लाख अड़तालीस हजार पांच सौ अड़तालीस मात्र)	10/06/202 (प्रतीकात्मव
2.	(लोन कोड नंबर - 19000001953), (गाजियाबाद-ब्रांच), परशित पांडे (उधारकर्ता)/ बृजेश पांडे (को-उधारकर्ता)	यूजा-02 खताना नबर-76, कृष वाटिका सुदामा पुरा कालाना, इ. नडेरा लोनी गाजियाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश: 201001	था हा हा है है जिस है जिस है जिस है जार सात सौ छियानबे रुपये)	11/06/202 (प्रतीकात्मव
3.	(लोन कोड नंबर-196DEL03656), (दिल्ली - सफदरजंग-ब्रांच), बिनोद के टेटरवे (उधारकर्ता)/(सह-उधारकर्ता)	तमाम भाग और हिस्से के साथ - एच/फ्लैट नंबर 218, फ्लोर नंबर 1, प्लॉट नंबर 218, सुपरटेक एस्टेट, विलेज गुड़गांव हरियाणा:- 122002	20/02/2024 रुपये 6175218.58/- रुपये (इकसठ लाख पचहत्तर हजार दो सौ अठारह पैसे केवल)	12/06/202 (प्रतीकात्मव
4.	(ऋण कोड संख्या-M0127607), (बहादुरगढ़ शाखा), रीना पी (उधारकर्ता)/हरदीप ए (सह- उधारकर्ता)	तमाम भाग और हिस्से के साथ - खेवात नंबर 809/657, खटोनी नंबर 860, वाका मौजा बमनोली, तहसील बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा-124505	03/01/2024 रु. 3121657/- (इकतीस लाख इक्कीस हजार छह सौ सत्तावन रुपये केवल)	12/06/202 (प्रतीकात्मव
5.	(लोन कोड नंबर-07700001371), (गाजियाबाद- ब्रांच), शरणबसु एम सिंगरी (बरवार)/शरण बस् एम सिंगरी (को-बोरोवर)	तमाम भाग और हिस्से के साथ - फ्लैट नंबर: एम -324, तीसरी मंजिल मर्करी टॉवर, द एलियन कोर्ट प्लॉट नंबर: जीएच-सी-3/1, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश - 201102	25/09/2023 रु. 2889387/-(रुपये अट्ठाईस लाख नवासी हजार तीन सौ सत्तासी केवल)	12/06/202 (प्रतीकात्मव
6.	(लोन कोड नंबर-11900002801), (नोएडा- ब्रांच), सुगंध पेपर्स ट्रेडर्स (उधारकर्ता)/मनीष जैन, आरती जैन (सह-उधारकर्ता)	तमाम भाग और हिस्से के साथ - पी नंबर- 88, एफएफ, शांति विहार की आबादी, इल्लाका-शाहदरा नियर- कड़कड़डूमा कोर्ट दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली :- 110092	20/02/2024 रुपये 23596785.24/- रुपये (रुपये दो करोड़ पैंतीस लाख छियानबे हजार सात सौ पचासी और चौबीस पैसे केवल)	12/06/202 (प्रतीकात्मव
7.	(लोन कोड नो-19700042390),(गुरगाँव - सोहना रोड-ब्रांच), राकेश कुमार बजाज (उधारकर्ता) / रितु बजाज (को-उधारकर्ता)	तमाम भाग और हिस्से के साथ - ए-602, पी नंबर 2, स्की व्यू अपार्टमेंट, वसुंधरा नगर भिवाड़ी अलवर राजस्थान :- 301019	27/10/2023 रु. 2951677/- (उनतीस लाख इक्यावन हजार छह सौ सत्तरत्तर रुपये केवल)	10/06/202 (प्रतीकात्मव
8.	सोहना रोड-ब्रांच), अजय चंद्रन (उधारकर्ता)/(सह-उधारकर्ता)	तमाम भाग और हिस्से के साथ - अपार्टमेंट नंबर 1602, 16 वीं मंजिल, जिन्ना टॉवर, सूरजकुंडरोड, ओमक्षे फॉरेस्ट, फरीदाबाद हरियाणा :- 121001	दो लाख छियासी हजार छह सौ सत्तासी मात्र)	10/06/202 (प्रतीकात्मव
9.	(लोन कोड नंबर-20000041626), (नोएडा -सेक्टर 2-ब्रांच), दीपक प्रसाद (उधारकर्ता)/मंजृ देवी चमोली (सह-उधारकर्ता)	तमाम भाग और हिस्से के साथ - फ्लैट नंबर- 402, दूसरी मंजिल, रियर आरएचएस ब्लॉक- ए, प्लॉट नंबर- ए-402 शालीमार गार्डन एक्सटेंशन -2 गाजियाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश:- 201010	इक्कीस हजार सात सौ छत्तीस पैसे केवल)	10/06/202 (प्रतीकात्मव
10	(लोन कोड नंबर-27300000344), (द्वारका- ब्रांच), विजय कश्यप (उधारकर्ता)/अंजलि कश्यप (को-उधारकर्ता)	तमाम भाग और हिस्से के साथ - फ्लैट नंबर- एफएफ 3, पहली मंजिल रियर आरएचएस फ्लैट प्लॉट नंबर बी-12/18, ब्लॉक-बी -12 डीएलएफ अंकुर विहार गाजियाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश:-201010	31/07/2023 रु. 1180881/-(रुपये ग्यारह लाख अस्सी हजार आठ सौ इक्यासी केवल)	07/06/202 (प्रतीकात्मव
11	(लोन कोड नंबर-27400000173), (भिवाड़ी- ब्रांच), अमित कुमार (उधारकर्ता)/मेनका (को- उधारकर्ता)	तमाम भाग और हिस्से के साथ - ओएमपीबी/301 थर्ड फ्लोर मैरीगोल्ड पनोरमा सिटी होम्स ओमैक्ससिटी होम्स भिवाड़ी राजस्थान अलवर राजस्थान:- 301019	27/10/2023 रु. 873152/-(रुपये आठ लाख तिहत्तर हजार एक सौ बावन केवल)	11/06/202 (प्रतीकात्मव
12		तमाम भाग और हिस्से के साथ - खेवट नंबर 681, खटोनी नंबर 825, विलेज लाखन माजरा रोहतक, रोहतक रोहतक हरियाणा:- 124514		10/06/2024 (प्रतीकात्मव
13	(लोन कोड नंबर-HLSA00008D9C), (मेरठ- ब्रांच), नमन चौधरी (उधारकर्ता)/सुषमा सिंह (सह-उधारकर्ता)	तमाम भाग और हिस्से के साथ - फ्लैट नंबर एच-311, सुपरटेक ग्रीन विलेज, पेट्रोल पंप के पास, नूर नगर, नंगला शेर खान उर्फ जैन पुर मेरठ उत्तर प्रदेश 250002	01/03/2024 रु. 1958396/-(रुपये उन्नीस लाख अट्ठावन हजार तीन सौ छियानबे केवल)	10/06/2024 (प्रतीकात्मव
14	(लोन कोड नं HALSA0000A60B), (दिल्ली- कालकाजी-ब्रांच), नदीम मियां (उधारकर्ता)/ फराह (को-उधारकर्ता)	तमाम भाग और हिस्से के साथ - फ्लैट नंबर जीएफ -04, ग्राउंड फ्लोर (पीछे दाएं हाथ की ओर) बिना रूफराइट, एलआईजी, प्लॉट नंबर ए -52, खसरा नंबर 351, रेल विहार सहकारी अवसामिटी लिमिटेड, गांव सादुल्लाबाद, परगना लोनी, तहसील और जिला। गाजियाबाद, यूपी 201102	03/01/2024 रुपये 1074771.48/- (रुपये दस लाख चौहत्तर हजार सात सौ इकहत्तर और अड़तालीस पैसे केवल)	07/06/2024 (प्रतीकात्मव
15	(ऋण कोड संख्या-HLSA00028C32), (फरीदाबाद - एनआईटी शाखा), अमित पांडे (उधारकर्ता) / प्रतिभा (सह-उधारकर्ता)	तमाम भाग और हिस्से के साथ फ्लैट नंबर यू जी एफ -2, अपर ग्राउंड फ्लोर रियर एलएचएस, प्लॉट नंबर सी -82, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन -2 साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश - 201010	01/03/2024 रु. 934923/-(रुपए नौ लाख चौंतीस हजार नौ सौ तेईस केवल)	10/06/2024 (प्रतीकात्मव
16	(ऋण कोड सं HLSA0002CE72), (दिल्ली शाखा), विनोद कुमार (उधारकर्ता) / दीपा सैनी (सह-उधारकर्ता)	तमाम भाग और हिस्से के साथ प्लॉट नंबर 47, बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर बिना छत के, ब्लॉक - V, इरोस गार्डन, सूरज कुंड रोड, सेक्टर 39, फरीदाबाद, हरियाणा - 121009	(र. इक्यांसा लाख बास हजार	07/06/2024 (प्रतीकात्मव
17	(ऋण कोड संख्या-HLSA0004BFB3), (दिल्ली - शाहदरा-शाखा), अजय कुमार (उधारकर्ता) / कीर्ति (सह-उधारकर्ता)	तमाम भाग और हिस्से के साथ प्लॉट नंबर 56 ब्लाक-डी, टीएफ- (बिना छत के) सेक्टर 8 एमसीडी स्कूल द्वारका नई दिल्ली 110077	बहत्तर हजार तीन सौ चौबीस और छप्पन पैसे के लिए	07/06/2024 (प्रतीकात्मव
18	(ऋण कोड संख्या - M0009126), (दिल्ली- शाखा), बीरेंद्र कुमार (उधारकर्ता) / रूपम भारती(सह-उधारकर्ता)	तमाम भाग और हिस्से के साथ अपार्टमेंट नंबर 8, ग्राउंड फ्लोर, अपार्टमेंट नं। जीएफ-08एफ-॥, ब्लॉक-एफ-॥, साउथेंड अपार्टमेंट, चार्मवुड विलेज, सूरज कुंड रोड, विलेज लक्करपुर, फरीदाबाद, हरियाणा 121009	08/11/2023 रु. 4489977/-(रुपये चौवालीस लाख नवासी हजार नौ सौ सतहत्तर केवल)	10/06/2024 (प्रतीकात्मव
19	शाखा), सतीश कुमार (उधारकर्ता) / बंबीता (सह-उधारकर्ता)	तमाम भाग और हिस्से के साथ प्लॉट नंबर 49-बी, ब्लॉक बी, इंद्रपुरी कॉलोनी एबीसीडी, हडबस्त ग्राम धरोती खुर्द, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन कोड - 201001.	इकतालीस लाख चौंसठ हजार पैंतालीस मात्र)	07/06/2024 (प्रतीकात्मव
20	(ऋण कोड संख्या - M0041797), (गुड़गांव- शाखा), उपेंद्र यादव (उधारकर्ता) / ललिता एल (सह-उधारकर्ता)	तमाम भाग और हिस्से के साथ मस्टेल नंबर 37 किला ओ.22 (8-00) धारूहेड़ा जिला-रेवाड़ी मौजा - अकेदेश्वरी लैंडमार्क-भगवान शिव मंदिर शहर के पास रेवाड़ी पिन 123106 राज्य एचपी देश भारत	25-02-2023 रु. 575415/-(रुपये पांच लाख पचहत्तर हजार चार सौ पंद्रह केवल)	11/06/2024 (प्रतीकात्मव
21	(ऋण कोड संख्या - M0051910), (दिल्ली- शाखा), जयपाल जयपाल (उधारकर्ता) / राकेश राठी (सह-उधारकर्ता)	तमाम भाग और हिस्से के साथ प्लॉट इन मौजा आथ बिस्वा, जटवाड़ा मोहल्ला प्लॉट इन मौजाआत बिस्वा जटवाड़ा मोहल्ला बहादुरगढ़, 124507	08/11/2023 रुपये 5411162.09/- (चौवन लाख ग्यारह हजार एक सौ बासठ और नौ पैसे केवल)	07/06/2024 (प्रतीकात्मव
22	शाखा), अमरेश मिश्रा (उधारकर्ता) / गौतम देवी (सह-उधारकर्ता)	तमाम भाग और हिस्से के साथ Khewat no 1747 Khatoni No 2369 Khasra No 880 Shiv Colony रोहतक 124001 में प्लॉट	रुपये (रुपये तीन लाख बत्तीस हजार छह सौ साठ केवल)	10/06/2024 (प्रतीकात्मव
23	(ऋण कोड संख्या-M0160847), (बहादुरगढ़- शाखा), संगीता (उधारकर्ता)/श्री पाल, जतिन (सह-उधारकर्ता)	तमाम भाग और हिस्से के साथ गली नंबर 7, न्यू पटेल पार्क, बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा में स्वतंत्र इकाई – 124507	सत्रह लाख चौबीस हजार नौ सौ अट्ठावन केवल)	07/06/2024 (प्रतीकात्मव
24	(ऋण कोड सं PHBTDEL04000593), (दिल्ली शाखा), अमरेश कुमार मिश्रा (उधारकर्ता) /	तमाम भाग और हिस्से के साथ खेवट नंबर 1747, खतौनी नंबर 2369, खसरा नंबर 880 45, मौजा रोहतक, शिव मंदिर के पास शिव कॉलोनी, रोहतक एचओ 124001		10/06/2024 (प्रतीकात्मव
25	शाखा), दिव्य ज्योति लश्कर (उधारकर्ता) / जॉयश्री ककाती (सह-उधारकर्ता)	सर्वेक्षण संख्या स्थित: सेक्टर 9, वसुंधरा पिनकोड: 201012 लैंडमार्क: जैन मंदिर के पास	10-01-2023 रु. 3917083/- (उनतालीस लाख सत्रह हजार तिरासी रुपये केवल)	10/06/2024 (प्रतीकात्मव
26	(उधारकर्ता) / ऑर्किड कॉर्पोरेशन सर्विसेज	तमाम भाग और हिस्से के साथ यूनिट नंबर 102 टॉवर 1, फ्लोर - 1st एम्बर यूनिटेक गोल्फ एंड कट्री क्लब (ग्रांडे) सेक्टर 96, 97 और 98 नोएडा गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश: 201301	03/01/2024 रु. 20474154/- (रुपये दो करोड़ चार लाख चौहत्तर हजार एक सौ चौवन केवल)	11/06/2024 (प्रतीकात्मव

दिनांक - 14.06.2024, स्थान - दिल्ली-एनसीआर

रिटेल एसेट्स सेंटरः प्रथम तल, जी-4/5 बी सेंटर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ उ०प्र0- 226010 रिजिस्टर्ड ऑफिसः (त्रिशूल), तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद—380006 जबिक, अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, न सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने करने में असफल रहे है, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुशंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टेगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी / सह—ऋणी / बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है

	111			
खातेदार / गारन्टरों का नाम एवं पता	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि	मांग नोटिस के अनु सार बकाया राशि
श्री सुनील पटेल (ऋणी) पुत्र श्री कन्हैयी लाल पताः कंथारिया बरेली, उत्तर प्रदेश—243006 इंडिया।	Vehicle- SONALIKA, MODEL: 55HP- E-DI 750 Reg NoUP25DN4929 Engine No4100EL14J1110866F16 Chassis NoKZZDR1117274S3.	22.01.2024	07.06.2024	रू० 768021.00 दि. 18.01.2024 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
श्रीमती गोमती (ऋणी) पत्नी श्री राजेश, श्री सतेन्द्र कुमार (सह—ऋणी) पुत्र श्री राजेश कुमार दोनों का पताः 27, दोहरा, आर0के0 यूनिवर्सिटी, बरेली उ0प्र0—243006	Vehicle- MANUFACTURER: SONA LIKA Model: 50HP-A-DI 750 III/SOLIS/WPS/RX Reg NoUP25DH5385 Engine No4100EL14D1049147F16 Chassis NoGZZDR1054748S3	22.01.2024	07.06.2024	रू0 538418.00 दि. 18.01.2024 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
दिनांकः 13.06.2024		प्रापि	धेकृत अ	धिकारी, एक्सिस बैंक लि0

एक्सिस बक लि0 किल का नाटस

कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

SPARK MINDA मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN: L74899DL1985PLC020401 **पंजीकृत कार्यालयः** ए–15, अशोक विहार, फेस–1, दिल्ली – 110052 कॉर्पोरेट कार्यालय: डी-6-11, सैक्टर-59, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश दूरभाष: 0120-4442500

वैबसाइटः www.sparkminda.com, ई-मेलः investor@mindacorporation.com

सूचना

विषयः मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएर्फ) खाते में स्थानांतरण

इसके द्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) और समय–समय पर संशोधित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 ("नियम") के प्रावधानों के अनुसार, सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है ("ऐसे शेयर") कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ("आईईपीएफए") ("प्राधिकरण") के डीमैट खाते में ऐसे शेयरों के आईईपीएफ में स्थानांतरित होने की नियत तिथि के तीस दिनों की अवधि के भीतर उक्त नियमों में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार स्थानांतरित कर दिए जाएंगे।

यह नोटिस उन शेयरधारकों के लिए प्रकाशित किया गया है, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2016–17 से प्रारंभ होकर लगातार सात वर्षों तक उनके द्वारा धारित कंपनी के इक्विटी शेयरों पर लाभांश / शेयरों को भुनाया नहीं है।

उक्त नियमों के अनुसार, ऐसे शेयरों के संबंध में दावा न किए गए लाभांश का दावा करने की अंतिम तिथि शेयरधारकों द्वारा 20/09/2024 होगी, ऐसा न करने पर, कंपनी ऐसे शेयरों को 18/10/2024 को या उससे पहले प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर देगी। इसके अलावा उक्त नियमों के अनुसार ऐसे शेयरों पर मिलने वाले सभी लाभ जैसे बोनस शेयर, स्प्लिट, समेकन, अंश शेयर और राइट इश्यू को छोड़कर इसी तरह के अन्य लाभ भी ऐसे डीमैट खाते में जमा किए जाएंगे। यदि संबंधित शेयरधारक के पास निम्नलिखित शेयर हों:

- भौतिक रूप में- नए शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे और नए शेयर प्रमाणपत्र जारी होने के बाद, कंपनी कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी कि शेयर प्रमाणपत्रों को डीमैट फॉर्म में परिवर्तित किया जाए और आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करनें के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में स्थानांतरित किया जाए। इसलिए, मूल शेयर प्रमाणपत्र जो शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत हैं, उन्हें रद्द और गैर–परक्राम्य माना जाएगा।
- डीमैट फॉर्म में– कंपनी आपके डीमैट खाते में पडे शेयरों को आईईपीएफ के पक्ष में स्थानांतरित करने के लिए कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, डिपॉजिटरी प्राधिकरण के डीमैट खाते के पक्ष में शेयरों का हस्तांतरण करेगी।

कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों के नवीनतम उपलब्ध पते पर उक्त उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत नोटिस भेजा है। आप कृपया हस्तांतरित किए जाने वाले अप्राप्त लाभांश और शेयरों के विवरण को सत्यापित करने के लिए वैब लिंक https://sparkminda.com/Uploads/prospectus/1547pdctfile_DetailsofUnclaimedDividendoflastsevenyearstill **31.03.2024.pdf** का संदर्भ ले सकते हैं।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे 20/09/2024 को या उससे पहले ऐसे शेयरों पर अवैतनिक लाभांश के संबंध में दावा करने के लिए एक लिखित आवेदन, पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति, रद्द किए गए चेक की प्रति और मूल अनकैश्ड लाभांश डिमांड ड्राफ्ट के साथ कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), मेसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, (सीआईएनः यू74899डीएल1995पीटीसी071324), डी–153 / ए, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली- 110 020, भारत या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करें। ऐसा न करने पर कंपनी आपके शेयरों को प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित / जमा कर देगी।

कुपया ध्यान दें कि कोई भी दावेदार जिसके शेयर प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित किए जाने योग्य हैं, उक्त नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शेयरों का दावा कर सकता है।

यदि शेयरधारकों के पास कोई प्रश्न / स्पष्टीकरण है तो वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क कर सकते हैं: मेसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, (सीआईएन: यु74899डीएल1995पीटीसी071324). डी—153 / ए. प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज—1, नई दिल्ली— 110 020, भारत । ईमेल: info@skylinerta.com फोनः +9111-26812682, 83, +9111-40450193-97 |

मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए प्रदीप मान कम्पनी सचिव

सदस्यता सं. ए–13371

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE

Notice is hereby given that the share certificates no. 2512, Folio No. 418, Number of Shares 2524 shares bearing distinctive no(s) 31091-32352, 20428773-20430034 standing in the name(s) of SAGARMAL GOENKA S/O DULI CHAND GOENKA in the books of m/s JBM Auto Limited has/have been lost/misplaced and the advertiser have applied to the company for issue of duplicate share certificate in lieu thereof. Any person(s) who has/have claim(s) on the said shares should lodge such claim(s) with the company's registrars and transfer agents viz MCS Share Transfer Agent Limited F-65 1st Floor Okhla Industrial Area, Phase - I New Delhi-110020 within 15 days from the date of this notice failing which the company will proceed to issue duplicate share certificate(s) in respect of the said shares.

Date: 13.06.2024 Place : Raiganj

Name(s) of the shareholder(s) Sagarmal Goenka

सार्वजनिक उद्घोषणा [भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया)

विनियमन, 2017 के विनियमन 14 के अंतर्गत] एनराइट मार्केटिंग एंड कंसिल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण
कॉपोरेंट ऋणधारक का नाम	एनराइट मार्केटिंग एंड कंसिल्टंग प्राइवेट लिमिटेड
कॉपोरेंट ऋणधारक के निगमन की तिथि	27 फरवरी, 2014
वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉपोर्रेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार - दिल्ली
कॉपोरेंट पहचान संख्या/कॉपोरेंट ऋणधारक का	U74999HR2014PTC052001
कॉपोरेंट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	एसएफ - 760, सातवॉ तल, जेएमडी मेगापोलिस, सेक्टर-48, ग्राम- टिकराई सोहना रोड, गुड़गाँव, गुड़गाँव, गुड़गाँव, हरियाणा भारत 120018
कॉपोरेंट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	13 जून, 2024
परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, टेलीफोन नम्बर तथा पंजीकरण संख्या	दीपक कुमार गोयल आर/ओ: फ्लैट नं. 101, श्रीधर अपार्टमेन्ट 884/6, वार्ड नं. 6 मेहरौली नई दिल्ली-110030, ईमेल आईडी ca.deepak.mba@gmail.com सम्पर्क नम्बर: 9990045308 आईबीबीआई पंजी सं: IBBI/IPA-001/IP-PO2490/2022-2023/14143 पत्राचार का पता: सी/ओ: 701, विक्रान्त टावर, नं. 4, राजेन्द्र प्लेस
	कॉपोरेंट ऋणधारक के निगमन की तिथि वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉपोरेंट ऋणधारक निगमित,पंजीकृत है कॉपोरेंट पहचान संख्या/कॉपोरेंट ऋणधारक का कॉपोरेंट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता कॉपोरेंट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता,

🗸 दावे जमा करने की अंतिम तिथि एतद्वारा सूचित किया जाता है **एनराइट मार्केटिंग एंड कंसन्टिंग प्राईवेट लिमिटेड** ने 13 जून, 2024 को स्वैच्छिक तद्द्वारा **एनराइट मार्केटिंग एंड कंसन्टिंग प्राईवेट लिमिटेड** के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. ७ में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 12 **जुलाई**, 2024 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें। फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक

माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। दावे का गलत या भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है। तिथि: 13 जून, 2024 स्थानः नई दिल्ली IBBI/IPA-001/IP-PO2490/2022-2023/14143

> [भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]

प्रपत्र ए

	3.	वट लिमटड क क्रडाटरा क ध्यानार्थ
	संबंधि	त विवरण
1.	कॉपोर्रेट ऋणधारक का नाम	आईवर्ल्ड बिजनेस सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉपोरेंट ऋणधारक के निगमन की तिथि	02.11.2005
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉपोरेंट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार - दिल्ली
4.	कॉपोरेंट पहचान संख्या/कॉपोरेंट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U72900DL2005PTC142257
5.	कॉपोरेंट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	30/1, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत-110008
6.	कॉपोरेंट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	सीआईआरपी आदेश की घोषणा 4.6.2024 को की ग आदेश 12.06.2024 को प्राप्त⁄सूचित की गई
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	09.12.2024 (आदेश की घोषणा की तिथि से 180 दिन
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के रूप में कार्यरत है	नामः आईपी मेघा अग्रवाल (सिनर्जी इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नल एलएलपी में पार्टनस) पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P01456/2018-19/12272
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफश्नल का पता एवं ईमेलः	्रपताः ००1, शिवरंजिनी अपार्टमेन्टस इन सर्किल ऑप कांग्रेस नगर नागपुर-440012 (एम.एस.) ईमेलः ip.meghaagrawal@gmail.com
10	अंतरिम प्रस्ताव प्रफिश्नल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	भू तल, 175, वैशाली, सेक्टर-6, गाजियाबाद (उ.प्र) -201012 ईमेल: cirp.iworld@gmail.com
11	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	26.06.2024
	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया	एन
13	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	एन
14	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	वेबलिकः https://ibbi.gov.in/en/home/download Physical Address: NA
ਹਰ	टटाम सनित किया जाता है कि मध्यीय कमानी विधि	अधिकाण नर्र टिल्ली पीट ने आईतर्ल किननेस सॉल्सण

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ ने **आईवर्ल्ड बिजनेस सॉल्यशन्स प्राईवेट लिमिटेड** के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव शुरू करने का आदेश दिया है (आदेश तिथि: 4.6.2024, आदेश 12.6.2024 का प्राप्त/सूचित की गई) एतद्द्वारा **आईवर्ल्ड बिजनेस सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड** के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास या उससे पर्व प्रमाण के साथ अपने

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स

व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते है। दावे का गलत अथवा भामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

तिथि: 14.06.2024

स्थानः दिल्ली

आईपी मेघा अग्रवाल अंतरिम प्रस्ताव कर्मी कत्ते. आईवर्ल्ड बिजनेस सॉल्यशन्स प्राईवेट लिमिटेड IBBI/IPA-001/IP-P01456/2018-19/12272

ईमेल : ip.meghaagrawal@gmail.com

एएफए की वैधता - 02.10.2024 तक ईमेल : cirp.iworld@gmail.com आईबीबीआई में पंजीकृत पता : 001, शिवरंजिनी अपार्टमेन्ट, इन सर्किल ऑफ कांग्रेस नगर गार्डन, कांग्रेस नगर, नागपुर 440012.

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 14.06.2024

अधिकृत अधिकारी, पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

SPARK MINDA

PADAM COTTON YARNS LIMITED

(CIN: L17112HR1997PLC033641) Regd. Office: 196, 1" Floor, Opp. Red Cross Bhawan,

G.T. Road, Karnal - 132001, Haryana www.padamcotton.com Email: cspcyl6@gmail.com Tel: 8383858860

NOTICE OF 30™ ANNUAL GENERAL MEETING, **BOOK CLOSURE, E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that the 30° Annual General Meeting (AGM') of the Members of M/s Padam Cotton Yarns Limited will be held on Wednesday, the 10th day of July, 2024 at 10:00 a.m. at Registered Office of the Company at 196, 1st Floor, G.T Road, Opp. Red Cross Market, Karnal- 132001 (Haryana), to transact the business mentioned in the Notice convening the

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Thursday, 4" July, 2024 to Wednesday, 10" July, 2024 (both days inclusive) for the purpose of

In Compliance with section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Company is providing E-voting facility to its members to cast their vote electronically on the resolutions to be transacted at 30° AGM of the Company.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the 30" AGM and Annual Repor containing, inter alia, the Audited Financial Statements for the financial year ended March 31 2024 and the Reports of Auditors and Directors thereon have been sent via email on Thursday June 13, 2024, to all the Members of the Company. The aforesaid documents are available or the Company's website at www.padamcotton.com and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, and is also available on the website of RTA, M/s Beeta Financial & Computer Services Pvt. Ltd., beetal@beetalfinancial.com.

Link to the annual report: https://www.padamcotton.com/images/pdf/Annual%20 Report Padam%20Cotton 2023-24.pdf

The members are informed that:

- The remote E-voting shall commence Sunday, 7th July, 2024 at 10:00 a.m. and ends on Tuesday, 9" July, 2024 at 5:00 p.m.
- The cut-off date for determining the eligibility of members for remote E-voting and voting through poll at the AGM is Wednesday, of 3" July, 2024.
- Any person who becomes member of the Company after dispatch of notice of the meeting and holding shares as on cut-off date i.e. 6" June, 2024 may obtain the user id and password by contacting, M/s Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd., Beetal House, 3" Floor 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukh Dass Mandir New Delhi-110062, Phone No.: 011-29961281-83, Fax No.: 011-29961284, E-mail beetal@beetalfinancial.com
- The members who cast their vote through remote E-voting may also attend the AGM bu shall not be allowed to cast their vote at the AGM.
- The facility of voting through poll shall be available at the AGM to those members who have not casted their vote through remote E-voting.
- The Notice is available at the company's website viz. www.padamcotton.com. Members may go through the e-voting instructions provided in the AGM Notice or may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting Manual for Shareholders a
- www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting @cdslindia.com The results of e-voting on the resolutions set out in the Notice of the AGM shall be declared within the permissible time under the applicable laws. The results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company www.padamcotton.com and on the website of Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd., immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorised by him and the result shall also be communicated

to the Stock Exchange i.e. BSE Limited. The results shall be displayed at the Registered at 196 1º Floor, Opp. Red Cross Bhawan, G.T. Road, Karnal-132001, Haryana. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds: N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400013 of send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542 / 43. For Padam Cotton Yarns Limited Sd/

Rajev Gupta Date: 13.06.2024 (Director) Place: Kamal DIN: 00172828



SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED (Formerly Fullerton India Credit Company Limited)

Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai -400051. DEMAND NOTICE

UNDER THE PROVISIONS OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 ("the Act") AND THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 ("the Rules") The undersigned being the authorized officer of SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED (former)

Fullerton India Credit Company Limited) (SMFG India Credit) under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) of the Act read with the Rule 3. issued Demand Notice(s) under Section 13(2) of the Act, calling upon the following borrower(s) to repay the amount mentioned in the respective notice(s) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The undersigned reasonably believes that borrower(s) is/are avoiding the service of the demand notice(s), therefore the service of notice is being effected by affixation and publication as per Rules. The contents of demand notice(s) are extracted herein below: Mana of the Demouselet

Name of the Borrower(s)	Demand Notice Date and Amount
RAMPHOOL GOEL. URMILA RANI GOEL. SUMIT GOEL.	11th June, 2024 Rs. 47,58,590/- [Rupees Forty Seven Lakhs Fifty Eight Thousand Five Hundred and Ninety Only] As on 05th June, 2024
Descript	ion of Immovable Property Mortgaged

OWNER OF THE PROPERTY – MR. URMILA RANI GOEL WIFE OF RAMPHOOL GOEL

ALL THAT PROPERTY PIECE AND PARCEL OF PROPERTY PART OF HOUSE NO. 278 MEASURING 151 SQ. YARDS SITUATED IN WARD NO. 19 GOHANA WITHIN THE LIMIT OF M.C. ABADI KNOWN AS UTTAM NAGAR TEHSIL GOHANA DISTT, SONIPAT BOUNDED BY BOUNDARIES AS UNDER: EAST - HOUSE OF ASHOK KUMAR & PARVEEN KUMAR, WEST HOUSE OF BHAGWANI DEVI, NORTH – PROPERTY OF JAI BHAGWAN, SOUTH – GALI. The borrower(s) are hereby advised to comply with the demand notice(s) and to pay the demand

amount mentioned therein and hereinabove within 60 days from the date of this publication together with applicable interest, additional interest, bounce charges, cost and expenses till the date of realization of payment. The borrower(s) may note that SMFG India Credit is a secured creditor and the loan facility availed by the Borrower(s) is a secured debt against the immovable property/properties being the secured asset(s) mortgaged by the borrower(s). In the event borrower(s) are failed to discharge their liabilities in full within the stipulated time. SMFG

India Credit shall be entitled to exercise all the rights under Section 13(4) of the Act to take possession of the secured asset(s) including but not limited to transfer the same by way of sale or by invoking any other remedy available under the Act and the Rules thereunder and realize payment. SMFG India Credit is also empowered to ATTACH AND/OR SEAL the secured asset(s) before enforcing the right to sale or transfer. Subsequent to the Sale of the secured asset(s), SMFG India Credit also has a right to initiate separate legal proceedings to recover the balance dues, in case the value of the mortgaged properties is insufficient to cover the dues payable to the SMFG India Credit. This remedy is in addition and independent of all the other remedies available to SMFG India Credit under any other law. The attention of the borrower(s) is invited to Section 13(8) of the Act, in respect of time available, to

redeem the secured assets and further to Section 13(13) of the Act, whereby the borrower(s) are restrained/prohibited from disposing of or dealing with the secured asset(s) or transferring by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business) any of the secured asset(s) without prior written consent of SMFG India Credit and non-compliance with the above is an offence punishable under Section 29 of the said Act. The copy of the demand notice is available with the undersigned and the borrower(s) may, if they so desire, can collect the same from the undersigned on any working day during normal office hours.

Place: Haryana Sd/- Authorised Officer, SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED Date: 14-June-2024 (formerly Fullerton India Credit Company Limited)

FORM G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR JTPL PRIVATE LIMITED OPERATING IN REAL ESTATE AT MOHALI DISTRICT, PUNJAB (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

PAN & CIN/LLP No.

(Under sub-regulation (1) of regulation 36A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India RELEVANT PARTICULARS Name of the corporate debtor along with M/s JTPL Private Limited

PAN - AAFCS9831D

CIN-U45200DL2001PTC111333

2.	Address of the registered office	Room 203, 2-A/3, Kundan Mansion, Asif Ali Roa Ajmeri Gate Extn, Central Delhi, Delhi, India, 110002.
3.	URL of website	www.jtpl.in
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	JTPL City Mohali Sector - 115/115A, Kharar Landran Road, Moha Punjab
5.	Installed capacity of main products/ services	As per approved MAP it is 77.0325 Acre Real Estal developed Township Project at Kharar Landran Roa Mohali Punjab.
6.	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	As per available data sale in FY 2023-24 is NIL since Project is already sold and developed.

Number of employees/ workmen Further details including last available Balance Sheet for FY 2021-22 financial statements (with schedules) of Balance Sheet for FY 2022-23 two years, lists of creditors are available at www.stalwartipe.com, www.itpl.in. Eligibility for resolution applicants under Details can be downloaded from section 25(2)(h) of the Code is available at | www.stalwartipe.com, www.itpl.in

10. Last date for receipt of expression of 29th June 2024 11. Date of issue of provisional list of 09th July, 2024 prospective resolution applicants 12. Last date for submission of objections to 14th July, 2024

provisional list 13. Date of issue of final list of prospective 24th July, 2024 resolution applicants 14. Date of issue of information 29th July 2024

memorandum, evaluation matrix and

request for resolution plans to prospective resolution applicants Last date for submission of resolution 28th August, 2024 up to 5 PM plans Through email as well as through Hard copies to be

STALWART RESOLUTION PROFESSIONAL LLP.

Corp Office: Block SD 73 Pitampura, New Delhi 110034

SD 73, PITAMPURA DELHI 110034 16. Process email id to submit Expression of cirp.jtpl@gmail.com Interest

Date: 14-06-2024 CMA Sandeep Goel-Place: Delhi Resolution Professional (IBBI/IPA-003/IP-N00073/2017-18/10583) M/s JTPL Private Limited

Regd. Office: 410, Pratap Bhawan, 5-Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

Franch Office: ICICI Bank Limited Plot No-23, Shal Tower, 3rd Floor, New Rohtak Road, Karol Bagh, New Delhi- 110005

The Authorised ICICI Bank Officer under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand Notices to the borrower(s) mentioned below, to repay the amount mentioned in the Notice within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

Having failed to repay the amount, the Notice is issued to the borrower and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described below, by exercising powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the belowmentioned dates. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property. Any dealings with the property will be subject to charges of ICICI Bank Limited.

Sr. No.	Name of the Borrower(s)/ Loan Account Number	Description of Property/ Date of Symbolic Possession	Date of Demand Notice/ Amount in Demand Notice (Rs)	Name of Branch
	Devi/ LBMAT00005064098/	1 Kitta, House No 55, Mauza Charaura, Awanti Bai Colony, Mathura, Uttar Pradesh- 281001/ June 10, 2024	January 12, 2024 Rs. 12,85,401/-	Mathura

The above-mentioned borrowers(s)/guarantors(s) is/are hereby issued a 30 day Notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold after 30 days from the date of publishing this Nótice, as per the provisions under Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002. Date: June 14, 2024 Sincerely Authorised Signatory

For ICICI Bank Ltd. Place: Mathura



Joy Tower, C 20, 2" Floor, 1/1A, C Block, Phase 2 Industrial Area, Sector 62, NOIDA, Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh 201301 ZONAL OFFICE

Head Office: Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-5 POSSESSION NOTICE [Rule - 8 (1)] (For Immovable Property)

एक परिवार एक बैंक

Whereas. The undersigned being the Authorised Officer of the Bank of Maharashtra under the securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of the powers conferred under Sub-Section (12) of Section 13 read with Rule 8 of the security interest (Enforcement) Rule, 2002, issued a Demand Notice dated mentioned below calling upon the borrower and guarantor to repay outstanding amount (mentioned below) within 60 days from the date of receipt of the said Notice. The Notice was sent by Regd. AD post and Speed Post. The borrower having failed to repay the amount, the undersigned has taken Symbolic Possession, of the properties described herein below in exercise o

lower conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on dates mentioned below. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the properties will be subject to the charge of Bank of Maharashtra. SAHARANPUR Branch for an amount herein mentioned. The borrower's attention is invited to the provisions of sub-section 8 of Sec. 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. Name & Address of Date of Details of Property

No.	Borrowers & Guarantor (S)	Details of Property	Demand Notice	Amount Due
1.	1-Mr. Mohd Alam S/o Mohd Akhtar Proprietor of M/s Alam Handicrafts	Name of Owner: 1- Mr. Mohd Alam S/O Mr. Mohd Akhtar	11.01.2024	Rs. 7,21,641.56 + interest and
100	Address: - House No: 11/7800 Atish Bajan Saharanpur Post and Tehsil Saharanpur District Saharanpur Pincode: 247001 2- Mr. Adeeb Ur Rehman S/o Mr. Irshad Ahmed Address: -Eid Gah Road Saharanpur Post and Tehsil Saharanpur	Details of Property: Property House Bearing MPL No. 11/7800 Mohalla Laki Gate Saharanpur Saharanpur Post and Tehsil Saharanpur District Saharanpur Pin code 247001 admeasuring Land-222.00 Sq Yard Owned by Mr. Mohd Alam S/o Mohd Akhtar Bounded as following:- East- House of Shri Abdul Gafur, West-After Common Wall House of Mukir, North- Masjid Ghisdam Wall South-Common Passage 10'0 wide	Possession Notice 12.06.2024	other charges / expenses w.e.f. 11.01.2024
Date	e - 12.06.2024 PLACE:	SAHARANPUR		Authorized Officer

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

Registered office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, PICICI Home Finance Bandra (East), Mumbai- 400051 Corporate Office: ICICI HFC Tower, JB Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai- 400059

Branch Office: 307/1, 1st floor, Bishnoi Tower, Mangal Pandey Nagar, Opposite Apex Tower, Meerut- 240002 Branch Office: Shop No. 9, Ground floor, GKS Palace, Ayub Khan- Choupla Road 63-64, Civil Lines, The undersigned being the Authorized Officer of ICICI Home Finance Company Limited under the

Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued demand notices upon the borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. As the borrower failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in

general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of ICICI Home Finance Company Limited. Sr. Name of the Borrower/ Date of Demand Name Description of property/ Co-borrower/ Notice/ Amount Date of Possession

No.	Loan Account Number	Date of Possession	in Demand Notice (Rs.)	Branch
1.	Arjun Saini (Borrower), Sudha (Co-Borrower), LHMRT00001473718	Property No. 387 Khasra No. 1197 1212M Ward No. 10 Kailashpuri Khekra II 0 Baghpat Uttar Pradesh- 250609 Admeasuring Arae 96.92 Sq. Mtrs or 115.92 Sqr Yrds North:- Rasta 18 Ft Wide (Ref. LAN No. LHMRT00001473718). Bounded By- North: Rasta 20 Ft Wide, South: House of Bhoop Singh, East: House of Sanju, West: House of Bhoop Singh./ Date of Possession- 12-06-2024	16-03-2024 Rs. 73,508.96/-	Meerut- B
2.	Arjun Saini (Borrower), Sudha (Co-Borrower), LHMRT00001473639	Property No. 387 Khasra No. 1197 1212M Ward No. 10 Kailashpuri Khekra II 0 Baghpat Uttar Pradesh- 250609 Admeasuring Arae 96.92 Sq. Mtrs or 115.92 Sqr Yrds North:- Rasta 18 Ft Wide (Ref. LAN No. LHMRT00001473639). Bounded By- North: Rasta 20 Ft Wide, South: House of Bhoop Singh, East: House of Sanju, West: House of Bhoop Singh./ Date of Possession- 12-06-2024	16-03-2024 Rs. 16,89,477/-	Meerut- B
3.	Shahedin (Borrower), Farzana (Co-Borrower), LHBAR00001518827	Na Plot Part of Gata No.66/3 Situated at Gram- Rasulpur Nagla Khem, Pargana and District- Moradabad (U.P)-244001 Moradabad Na Moradabad Uttar Pradesh- 244001 (Ref. LAN No. LHBAR00001518827). Bounded By- North: Plot of Yunus, South: Plot of Digar Person, East: Plot of Brajmohan, West: 14 Ft Wide Road./ Date of Possession- 10-06-2024	18-03-2024 Rs. 1,45,347.92/-	Bareilly- B
4.	Shahedin (Borrower), Farzana (Co-Borrower), LHBAR00001518823	Na Plot Part of Gata No.66/3 Situated at Gram- Rasulpur Nagla Khem, Pargana and District- Moradabad (U.P)- 244001 Moradabad Na Moradabad Uttar Pradesh- 244001 (Ref. LAN No. LHBAR00001518823). Bounded By- North: Plot of Yunus, South: Plot of Digar Person, East: Plot of Brajmohan, West: 14 Ft Wide Road./ Date of Possession- 10-06-2024	18-03-2024 Rs. 28,56,743/-	Bareilly- B

the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002. Date: June 14, 2024 **Authorized Officer**

Place: Baghpat, Moradabad **ICICI Home Finance Company Limited**

IDFC First Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited)

Tel: +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022

Type of

borrowers and

Account

Date: 14.06.2024

Place: DELHI/NCR

CIN: L65110TN2014PLC097792 Registered Office: - KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai- 600031



Property Address

IDFC FIRST

Notice under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

The following borrowers and co-borrowers availed the below mentioned secured loans from IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile

Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) The loans of the below-mentioned borrowers and co- borrowers have been secured by the mortgage of their respective properties. As they have failed to adhere to the terms and conditions of the respective loan agreements and had become irregular, their loan were classified as NPA as per the RBI guidelines. Amounts due by them to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) are mentioned as per respective notices issued more particularly described in the following table and further interest on the said amounts shall also be applicable and the same will be charged as per contractual rate with effect from their respective dates. Outstanding Section Name of

13 (2)

amount as

No.	No.	Loan	co-borrowers	Notice Date	per Section 13 (2) Notice	Property Address
1	34042340	LOAN AGAINST PROPERTY	1. RAHUL CHAUDHARY 2. RENU RAHUL 3. MUKESH VINOD	22.05.2024	12,14,793.95/-	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF RESIDENTIAL PLOT NO. 248, TOTAL PLOT AREA 190 SQ, MTRS. SITUATED AT POCKET/BLOCK-C, SECTOR/VILLAGE ABADI: KASNA, GREATER NOIDA, DISTRICT-GAUTAM BUDH NAGAR, UTTAR PRADESH-201310, AND BOUNDED AS: EAST:7.50 MTR. WIDE ROAD WEST: PLOT NOS. 263 & 262, NORTH: PLOT NO. 249, SOUTH:7.50 MTR. WIDE ROAD
2	17996810	HOME LOAN	1. RAJESH KUMAR SHAH 2. JYOTI KUMARI	17.05.2024	12,14,678.04/-	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF LIG FLAT NO. 301, ON THIRD FLOOR (WITH ROOF RIGHTS), HAVING COVERED AREA 35 SQ. YDS. I.E. 29.26 SQ. MTRS., OUT OF KHASRA NO. 76 & 78 MIN, BUILT ON PLOT NO. 20, 21, 28 & 29, SITUATED AT SUDAMAPURI COLONY (KRISHNA VATIKA), VILLAGE: DUNDAHERA, PARGANA: LONI, TEHSIL & DISTRICT: GHAZIABAD, UTTAR PRADESH-201102, AND BOUNDED AS: NORTH-EAST: OTHER FLAT SOUTH-WEST: ENTRY, NORTH-WEST: FLAT NO. 308, SOUTH-EAST: FLAT NO. 302

with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) as per the details shown in the above table with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs, charges etc. within 60 days from the date of this publication, failing which the undersigned shall be constrained to initiate proceedings, under Section 13 (4) and section 14 of the SARFAESI Act, against the mortgaged properties mentioned hereinabove to realize the amount due to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited). Further you are prohibited under Section 13 (13) of the said Act from transferring the said secured assets either by way of sale/lease or otherwise. **Authorized Officer** IDFC FIRST Bank Limited

financialexp.epapr.in

IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited)

(erstwhile Capital First Limited, amalgamated with



Minda Corporation Limited

CIN: L74899DL1985PLC020401

Registered Office: A-15, Ashok Vihar, Phase-I, Delhi-110052 Corporate Office: D-6-11, Sector – 59, Noida – 201301, Uttar Pradesh **Telephone:** +91-0120 - 4442500

Website: www.sparkminda.com, E-mail: investor@mindacorporation.com

NOTICE

Sub: Transfer of Equity Shares of the Minda Corporation Limited ("Company") to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act. 2013 and Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended from time to time ("Rules"), all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more ("such shares") shall be transferred by the Company in the Demat Account of Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPFA") ("Authority") within a period of thirty days of such shares becoming due to be transferred to the IEPF as per the procedure mentioned in the said Rules.

This Notice is published for those Shareholders who have not encashed the Dividend/Shares for last seven consecutive years commencing from the financial year 2016-17 on the Equity Shares of the Company held by them.

In terms of the said Rules, the last date of claiming the unclaimed dividend in respect of such shares shall be 20/09/2024 by the Shareholders, failing which, the Company shall transfer such shares to the Demat account of Authority on or before 18/10/2024. Further in terms of the said Rules all benefits accruing on such shares like bonus shares, split, consolidation, fraction shares and the like except right issue shall also be credited to such DEMAT account.

In case the concerned shareholder held shares:

Place: Delhi

Date: 14.06.2024

 In Physical form- New share certificate(s) will be issued and after issue of new share certificate(s), the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the share certificates into DEMAT form and transfer in favour of the IEPF Authority on completion of necessary formalities. Hence, the original share certificate(s) which stand registered in the name of shareholders will deemed to be cancelled and non-negotiable.

In demat form- the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares lying in your demat account in favour of IEPF. On receipt of such intimation, the depository shall effect the transfer of shares in favour of DEMAT account of the Authority.

The Company has dispatched individual notice at the latest available address of the concerned shareholders for the

said purpose. You may please refer to the web link https://sparkminda.com/Uploads/prospectus/1547pdctfile

DetailsofUnclaimedDividendoflastsevenyearstill31.03.2024.pdf to verify the details of uncashed dividend and shares liable to be transferred. Shareholders are requested to make claim in respect of unpaid dividend on such shares on or before 20/09/2024 by submitting a written application along with a self-attested copy of PAN card, copy of cancelled cheque and the original

uncashed Dividend Demand Draft to the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA), M/s Skyline Financial Services Private Limited, (CIN:U74899DL1995PTC071324), D-153/A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi- 110 020. India or at the Registered Office of the Company failing which the Company shall transfer/ credit your shares to Demat account of the Authority.

Please note that any claimant whose shares are liable to be transferred to Demat Account of the Authority can claim shares in accordance with the procedure laid down under the said Rules.

In case shareholders have any query/clarification they may contact to the Company's Registrar & Share Transfer Agent: M/s Skyline Financial Services Private Limited, (CIN: U74899DL1995PTC071324), D-153/A, Ist Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110 020, India. Email: info@skylinerta.com Phone: +9111-26812682, 83, +9111-40450193-97.

> For Minda Corporation Limited Pardeep Mann

> > 12/06/2024

(Symbolic)

10/06/2024

Ninety Six Thousand Seven

Thousand Six Hundred Eighty

Seven Only)

Company Secretary M.No. A-13371

Piramal Capital And Housing Finance Limited Piramal (Formerly Known as Dewan Housing Finance Corporation Ltd.) CIN:L65910MH1984PLC032639 Registered Office: Unit No.-601,6th Floor ,Piramal Amiti Building, Piramal Agastya Corporate Park, Kamani Junction, Opp. Fire Station,LBS Marg,Kurla (west) ,Mumabai-400070 –T +91 22 3802 4000. Branch Office : Unit No. 01 & 09, Ground Floor, GD-ITL North

Ex Tower, Plot No. A-9, Netaji Subhash Place, New Delhi – 110034 & Plot no-6, Block-A 2nd Floor, Sector 2, Noida – 201301 POSSESSION NOTICE

For Immovable Property as per Rule 8-(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and Appendix-IV Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Piramal Capital & Housing Finance Ltd. (Formerly Known as Dewan Housing Finance Corporation Ltd)

under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Demand Notice(s) issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower(s) / Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the

below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of the Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 200 borrower's attention is invited to provisions of sub –section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower in parand the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Piramal Capital & Finance Ltd. (Formerly Known as Dewan Housing Finance Corporation Ltd) for an amount as mentioned herein under with interest thereon.						
SI No.	Name of the Borrower(s) / Guarantor (s)	Description of secured asset (immovable property)	Demand Notice Date and Amount	Date of Possessio		
1	(Loan Code No-2740000015),(Bhiwadi-	All the Part & Parcel of Property - Plot No 21	29/06/2023 for Rs. 1048548/-	10/06/2024		
	Branch), Vijay Kumar Sharma (Borrower)	Block No 12 N D L C City 1 Vill Khidarpur Teh				
- 1	/Mamta Sharma (Co-Borrower)	Tijara Near Alwar Bypass Bhiwadi Rajasthan	Thousand Five Hundred Forty Fight	, ,		

Alwar Rajasthan: - 301019 Only) 2 (Loan Code No-19000001953),(Ghaziabad- All the Part & Parcel of Property - Plot No -9 20/12/2023 for Rs. 898796/-Branch). Parishita Pandey (Borrower) Flat No Ug-02 Kh No -76 Krish Vatika Sudama (Rupees Eight Lakh Ninety Eight (Symbolic) /Brijesh Pandey (Co-Borrower) Puri Colony, dundahera Loni Ghaziabad Thousand Seven Hundred Ninety Ghaziabad Uttar Pradesh: - 201001 Six Only) 3 (Loan Code No-196DEL03656), (Delhi - All the Part & Parcel of Property - H/Flat 20/02/2024 for Rs. 6175218.58/-12/06/2024 Safdurjung-Branch), BINOD K TATERWAY No.218, Floor No. 1St, Plot No. 218 (Rupees Sixty One Lakh Seventy (Symbolic) (Borrower) / (Co-Borrower) Supertech Estate, Village. Gurgaon Gurgaon Five Thousand Two Hundred Gurgaon Haryana: - 122002 Eighteen and Fifty Eight Paise Only)

4 (Loan Code No-M0127607), (Bahadurgarh- All the Part & Parcel of Property - Khewat 03/01/2024 for Rs. 3121657/ 12/06/2024 Branch), Reena P (Borrower) /Hardeep A (Co- No. 809/657, Khatoni No. 860, Waka Mauja (Rupees Thirty One Lakh Twenty (Symbolic) Borrower) Bamnoli, Tehsil Bahadurgarh, District Jhajjar, One Thousand Six Hundred Fifty Haryana- 124505 Seven Only) (Loan Code No-07700001371), (Ghaziabad- All the Part & Parcel of Property - Flat No: M- 25/09/2023 for Rs. 2889387/ 12/06/2024 Branch), Sharanbasu M Singari (Borrower) 324, 3Rd Floor Mercury Tower, The Alien (Rupees Twenty Eight Lakh Eighty (Symbolic) /Sharan Basu M Singari (Co-Borrower) Court Plot No: Gh-C-3/1, Tronica City Nine Thousand Three Hundred Ghaziabad Ghaziabad Uttar Pradesh - 201102 Eighty Seven Only)

/Manish Jain, Aarti Jain (Co-Borrower) Near- Karkardooma Court Delhi New Delhi Hundred Eighty Five and Twenty Four Paise Only) (Loan Code No-19700042390), (Gurgaon - All the Part & Parcel of Property - A-602 P 27/10/2023 for Rs. 2951677/-10/06/2024 Sohna Road-Branch), Rakesh Kumar Bajaj No 2 Sky View Apartment Vasundhra Nagar (Rupees Twenty Nine Lakh Fifty (Symbolic) One Thousand Six Hundred (Borrower) / Ritu Bajaj (Co-Borrower) Bhiwadi Alwar Rajasthan: - 301019 Seventy Seven Only) (Loan Code No-197DD700139), (Gurgaon - All the Part & Parcel of Property - Apartment 27/10/2023 for Rs. 286687/-Sohna Road-Branch), Ajay Chandran No. 1602,16th Floor, Zinna Tow Er, Surajkund (Rupees Two Lakh Eighty Six (Symbolic)

6 (Loan Code No-11900002801), (Noida- All the Part & Parcel of Property - P.no- 88, 20/02/2024 for Rs. 23596785.24/-

Branch), Sugandh Papers Traders (Borrower) Ff, Abadi Of Shanti Vihar, Illaqa-shahdara (Rupees Two Crore Thirty Five Lakh

2-Branch), Deepak Prasad (Borrower) /Manju Second Floor, Rear Rhs Block- A, Plot No.- A- (Rupees Eighteen Lakh Twenty One (Symbolic) Devi Chamoli (Co-Borrower) 402 Shalimar Garden Extension-2 Ghaziabad Thousand Seven Hundred Six and Ghaziabad Uttar Pradesh: - 201010 Thirty Six Paise Only) (Loan Code No-27300000344),(Dwarka- All the Part & Parcel of Property - Flat No- 31/07/2023 for Rs.1180881/-Branch), Vijay Kashyap (Borrower) /Anjali Ff3, 1st Floor Rear Rhs Flat Plot No B-12/18, (Rupees Eleven Lakh Eighty (Symbolic) Block-b-12 Dlf Ankur Vihar Ghaziabad Thousand Eight Hundred Eighty Kashyap (Co-Borrower) Ghaziabad Uttar Pradesh: - 201010 One Only)

(Loan Code No-27400000173), (Bhiwadi- All the Part & Parcel of Property - Ompb/301 27/10/2023 for Rs. 873152/-Branch), Amit Kumar (Borrower) /Menaka Third Floor Marigold Panorma City Homes (Rupees Eight Lakh Seventy Three (Symbolic) OmaxCity Homes Bhiwadi Rajasthan Alwar Thousand One Hundred Fifty Two (Co-Borrower) Rajasthan: -301019 (Loan Code No-28300000931), (Rohtak- All the Part & Parcel of Property - Khewat No 26/06/2023 for Rs. 1393827/ 10/06/2024

Branch), Dharminder D (Borrower) / Manisha 681 Khatoni No 825, Village Lakhan Majra (Rupees Thirteen Lakh Ninety (Symbolic) Three Thousand Eight Hundred Rohtak, Rohtak Rohtak Harvana: - 124514 M (Co-Borrower) Twentv Seven Onlv) (Loan Code No-HLSA00008D9C), (Meerut- All the Part & Parcel of Property - Flat No. H- 01/03/2024 for Rs. 1958396/-10/06/2024

/Sushma Singh (Co-Borrower) Kalkaji-Branch), Nadeem Miyan (Borrower) /Farha (Co-Borrower)

(Borrower) / (Co-Borrower)

Distt. Ghaziabad. Up 201102 (Loan Code No-HLSA00028C32),(Faridabad - All the Part & Parcel of Property - Flat No-u 01/03/2024 for Rs. 934923/- 10/06/2024

/Pratibha (Co-Borrower)

Ghaziabad Uttar Pradesh - 201010

Branch), Vinod Kumar (Borrower) /Deepa 47, Basement & Ground Floorwithout roof. sector 39, Faridabad, Haryana - 121009 /Kirti (Co-Borrower) School Dwarka New Delhi 110077

Birendra Kumar (Borrower) /Rupam Bharati No. 8, Ground Floor, Apartment No. Gf-08F-li.

(Co-Borrower)

(Co-Borrower)

Branch), Sangeeta (Borrower) /Shri Pal, Jatin Unit in Gali No. 7, New Patel Park, Bahadurgarh, Seventeen Lakh Twenty Four (Symbolic)

(Co-Borrower)

/Joyshree Kakati (Co-Borrower)

Branch), Amresh Kumar Mishra (Borrower) /

District Jhajjar, Haryana – 124507 (Loan Code No-PHBTDEL04000593), (Delhi- All the Part & Parcel of Property - Khewat No 03/01/2024 for Rs. 861305/-(Rupees 1747 Khatoni No 2369 Khasra No 880 4 5 Eight Lakh Sixty One Thousand (Symbolic)

Mandir Rohtak Rohtak H.O 124001 No.CP 2, Municipal No./survey no . Situated at sector 9, Vasundhara Pincode: 201012

Landmark: near Jain Mandir

(Loan Code No-01400003551),(New Delhi-Branch) Color Palette Pvt Ltd (Borrower)

All the Part & Parcel of Property - Unit No. 03/01/2024 for Rs. 20474154/- 11/06/2024 (Symbolic)

/Orchid Corporat Services India P Ltd, Naveen Chauhan, Abhishek Sharma (Co-Borrower) Place: Delhi-NCR, Date: 14.06.2024

(Authorised Officer) For Piramal Capital And Housing Finance Limited

Road, Omaxe Forest, Faridabad Harvana:-(Loan Code No-20000041626),(Noida -sector All the Part & Parcel of Property - Flat No. - 402, 20/02/2024 for Rs. 1821706.36/-

Branch), Naman Chaudhary (Borrower) 311 Supertech Green Village Near (Rupees Nineteen Lakh Fifty Eight (Symbolic) PetrolPump Noor Nagar Nangla Sher Khan Thousand Three Hundred Ninety Urf Jain Pur Meerut Uttar Pradesh 250002 Six Only) (Loan Code No-HLSA0000A60B),(Delhi - All The Part & Parcel Of Property - Flat No. Gf- 03/01/2024 for Rs. 1074771.48/- 07/06/2024 04, Ground Floor (back Right-hand Side) (Rupees Ten Lakh Seventy Four (Symbolic) Without Roofright, Lig, Plot No. A-52, Khasra No. 351, Rail Vihar Sehkari Awassamiti Ltd., Village Sadullabad, Pargana Loni, Tehsil & One and Forty Eight Paise Only)

NIT-Branch), Amit Pandey (Borrower) | GF-2,upper Ground Floor Rear Lhs,plot No-c- (Rupees Nine Lakh Thirty Four (Symbolic) 82,dlf Dilshad Extension-2 Sahibabad Thousand Nine Hundred Twenty

(Loan Code No-HLSA0002CE72),(DeIhi- All the Part & Parcel of Property - Plot No. 03/01/2024 for Rs. 8120534.2/- 07/06/2024 (Rupees Eighty One Lakh Twenty (Symbolic) Block - V, Eros Garden, Suraj Kund Road, Thousand Five Hundred Thirty Four and Twenty Paise Only) (Loan Code No-HLSA0004BFB3), (Delhi - All the Part & Parcel of Property - Plot No. 56 | 22/01/2024 for Rs. 9572324.56/-Shahdara-Branch), Ajay Kumar (Borrower) Blk-D, TF-(without roof) Sector 8 NearMCD (Rupees Ninety Five Lakh Seventy (Symbolic) Two Thousand Three Hundre

Twenty Four and Fifty Six Paise Only) (Loan Code No-M0009126), (Delhi-Branch), All the Part & Parcel of Property - Apartment 08/11/2023 for Rs. 4489977/-(Rupees Forty Four Lakh Eighty (Symbolic) Block-F-li, Southend Apartments, Charmwood Nine Thousand Nine Hundred Village, Suraj Kund Road, Village Lakkarpur, Seventy Seven Only)

Faridabad, Haryana Haryana 121009 (Loan Code No-M0035284),(Gurgaon- All the Part & Parcel of Property - Plot No. 03/01/2024 for Rs. 4164045/- 07/06/2024 Branch), Satish Kumar (Borrower) /Babita 49-B, Block B, Indrapuri Colony Abcd, (Rupees Forty One Lakh Sixty Four (Symbolic) Hadbast Gram Dharoti Khurd, Ghaziabad, Thousand Forty Five Only) Uttar Pradesh, Pin Code-201001 (Loan Code No-M0041797),(Gurgaon- All the Part & Parcel of Property - Mustail 25-02-2023 for Rs. 575415/- 11/06/2024

Branch), Upender Yadav (Borrower) /Lalita L No.37 Killa O.22(8-00)Dharuhera District- (Rupees Five Lakh Seventy Five (Symbolic) Rewari Mauja-Akedarewari Landmark-Near Thousand Four Hundred Fifteen Lord Shiva Temple City Rewari Pin 123106 Only) State Hp Country India (Loan Code No-M0051910),(Delhi-Branch), All the Part & Parcel of Property - Plot In 08/11/2023 for Rs. 5411162.09/- 07/06/2024 Jaipal Jaipal (Borrower) /Rakesh Rathee (Co- Mouja Aath Biswa Jatwada Mohlla Plot In (Rupees Fifty Four Lakh Eleven (Symbolic)

MoujaAath Biswa Jatwada Mohlla Thousand One Hundred Sixty Two Bahadurgarh, 124507 and Nine Paise Only) (Loan Code No-M0126021), (Rohtak-Branch), All the Part & Parcel of Property - Plot in 03/01/2024 for Rs. 332660/-10/06/2024 Amresh Mishra (Borrower) /Gautam Devi (Co- Khewat no 1747 Khatoni No 2369 Khasra No (Rupees Three Lakh Thirty Two (Symbolic) Thousand Six Hundred Sixty Only) 880 Shiv Colony Rohtak 124001 (Loan Code No-M0160847), (Bahadurgarh- All the Part & Parcel of Property - Independent 22/01/2024 for Rs. 1724958/-(Rupees 07/06/2024

Mouia Rohtak Shiv Colony Near Near Shiv Three Hundred Five Only) (Loan Code No-M0030068), (New Delhi- All the Part & Parcel of Property - Flat No./Plot 10-01-2023 for Rs. 3917083/- 10/06/2024 Branch), Dibya Jyoti Laskar (Borrower) No .:Flat No.407.forth floor None : Plat No.407.forth floor No.407.forth floo 850.0sg.ft/mtrs.carpet Building Name : Plot Seventeen Thousand Eighty Three

Thousand Nine Hundred Fifty Eight Only)

10/06/2024

GolfAnd Country Club (grande) Sector 96, 97 Seventy Four Thousand One And 98 Noida Gautambudh Nagar Uttar Hundred Fifty Four Only)

New Delhi